

फार्म हाउस में बनाया जा रहा था मिलावटी पेट्रोल:मेरठ में पुलिस ने 640 लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया, तेल माफिया फरार



मेरठ में खरखौदा क्षेत्र में फार्म हाउस में नकली डीजल व पेट्रोल बनाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर छापा मारते हुए 640 लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि तेल माफिया व अन्य लोग पहले ही फरार हो गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

मिलावटी तेल की सूचना दी गई

एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम नालपुर में कृष्णा विलेज ढाबे के बाद नकली डीजल व पेट्रोल बेचा जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी खरखौदा मेरठ द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को जानकारी दी गई। जिसके बाद पूर्ति निरीक्षक व पुलिस मौके पर पहुंची। जहां आरोपी पहले ही फरार हो गये। मौके पर मिले ड्रमों में देखा तो उनमें केमिकल से बना हुआ पेट्रोल भरा हुआ था।

हर रोज बेचते थे डीजल व पेट्रोल

पुलिस की जांच में आया की हर रोज मिलावटी डीजल व पेट्रोल बेचते थे। जिस फार्म हाउस/ अहाते में केमिकल से मिलाकर तेल बेचा जा रहा था। इसकी पुलिस जांच कर रही है। आपूर्ति विभाग की तरफ से खरखौदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मौके से 08 प्लास्टिक के खाली ड्रम, 04 लोहे के भरे ड्रम, 03 तीन लोहे के खाली ड्रम, एक 05 लीटर का मापना, एक 01 लीटर का मापना, एक मापक स्केल, ड्रम से तेल निकालने वाली पाइप व एक केमिकल का ड्रम बरामद किया है। लोहे के 200 लीटर के बैरल भी पेट्रोल से भरे हुए थे।

मेरठ में भारी पड़ते रहे हैं तेल माफिया

मेरठ में तेल माफिया पुलिस व प्रशासन पर भारी पड़ते रहे हैं। अगस्त 2019 में मेरठ के परतापुर व टीपीनगर क्षेत्र में आईजी के निर्देश पर पुलिस ने 2.20 लाख लीटर मिलावटी तेल पकड़ा था। जिसके लिए शासन ने एसआईटी भी गठित की। दस लोगों को मौके से पकड़ा गया था। उसके बाद टीपीनगर में फिर कई बार मिलावटी तेल पकड़ा जाता रहा है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/meerut/news/police-recovered-640-liters-of-fake-petrol-in-meerut-oil-mafia-absconding-129818068.html>